

SEMESTER EXAMINATION-2021

सेमेस्टर परीक्षा-2021

CLASS – MA/MSC

SUBJECT: YOGIC SCIENCE

कक्षा: एम. ए./ एम.एस.सी. विषय: योग विज्ञान

PAPER CODE: MYS-C 101

PAPER TITLE: FUNDAMENTAL OF YOGA

प्रश्नपत्र कोड: MYS-C 101 शीर्षक: योग के आधारभूत तत्त्व

TIME/अवधि: 3 HOUR/घंटा

MAX. MARKS/ अधिकतम अंक: 70

MIN. PASS/न्यूनतम अंक: 40%

NOTE: QUESTION PAPER IS DIVIDED INTO TWO SECTIONS: A AND B. ATTEMPT BOTH THE SECTIONS AS PER GIVEN INSTRUCTIONS.

नोट: प्रश्नपत्र के दो भाग हैं ए एवं बी। निर्देशानुसार दोनों भाग कीजिये

SECTION-A (SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS)

सेक्शन-ए: लघु उत्तरीय प्रश्न

INSTRUCTIONS: ANSWER ANY FIVE QUESTIONS IN ABOUT 150 WORDS EACH. EACH QUESTION CARRIES SIX MARKS.

निर्देश: किन्ही पांच प्रश्नों के प्रति प्रश्न लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिये. प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है।

(5 X 6 = 30 MARKS)

(5 X 6 = 30 अंक)

Question-1: Explain the history and development of yoga.

प्रश्न संख्या-1 योग के उद्देश्यों को लिखिए

Question-2: write the objectives of yoga.

प्रश्न संख्या-2 वेदों में योग के स्वरूप को लिखिए

Question-3: write the nature of yoga in Vedas.

प्रश्न संख्या-3 योग की उत्पत्ति से आपका क्या आशय है?

Question-4: what do you mean by origin of yoga?

प्रश्न संख्या-4 योग से सम्बंधित भ्रामक धारणाओं को लिखिए

Question-5: write the misconceptions related to yoga.

प्रश्न संख्या-5 हठनावली का संक्षिप्त परिचय लिखिए

Question-6: write the short introduction of Hathratnavali.

प्रश्न संख्या-6 स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगदान को स्पष्ट कीजिये

Question-7: clarify the contributions of swami Dayanand sarswati.

प्रश्न संख्या-7 जैन परम्परा में योग के स्वरूप को लिखिए

Question-8: write the nature of yoga in jain tradition.

प्रश्न संख्या-8 हठयोग को परिभाषित कीजिये

Question-9: Define Hathyoga.

प्रश्न संख्या-9 बौद्ध दर्शन में योग के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये

Question-10: Mention the principle of yoga in Buddhist philosophy.

प्रश्न संख्या-10 सांख्य और योग के सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये

Clarify the relationship between the smakhya and yoga.

SECTION-B (LONG ANSWER TYPE QUESTIONS)

सेक्शन-बी (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

INSTRUCTIONS: ANSWER ANY FOUR QUESTIONS IN DETAIL. EACH QUESTION CARRIES 10 MARKS.

निर्देश: किन्ही चार प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिये . प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

(4 X 10 = 40 MARKS)

(4 X 10 = 40 अंक)

Question-11: write the history and development of yoga in detail.

प्रश्न संख्या-11 योग के इतिहास एवं विकास को विस्तार से लिखिए

Question-12: explain the Nature of Yoga in Vedant Philosophy.

प्रश्न संख्या-12 वेदांत दर्शन में योग के स्वरूप की व्याख्या कीजिये

Question-13: Describe the Gyan yoga in detail.

प्रश्न संख्या-13 ज्ञान योग का विस्तार से विवेचन कीजिये

Question-14: Describe the methods of yoga sadhna propounded by Maharshi patanjali.

प्रश्न संख्या-14 महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग साधना पद्धतियों का वर्णन कीजिये

Question-15: Write the subject matter of hathpradipika in detail.

प्रश्न संख्या-15 हठप्रदीपिका की विषय-वस्तु को विस्तार से लिखिए

Question-16: Describe bhakti yoga in detail.

प्रश्न संख्या-16 भक्तियोग का विस्तार से वर्णन कीजिये

Question-17: Mention the Nature of Yoga in upanishadas in detail.

प्रश्न संख्या-17 उपनिषदों में योग के स्वरूप का उल्लेख कीजिये

Question-18: Write the life sketch of Swami Kuvlayanand in detail.

प्रश्न संख्या-18 स्वामी कुवलयाणंद का जीवन परिचय विस्तार से लिखिए

---PAPER CODE: ---

--- पेपर कोड ---